

Common Hindi Phrases and Their English Translations

1. कोई जरूरत नहीं है

- **Translation:** No need!
- **Understanding:** Used to indicate that something is unnecessary.
- **Example:**
 - **Hindi:** "तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है।"
 - **English:** "You don't need my help."

2. किसकी गलती है

- **Translation:** Who's at fault? / Who is to blame?
- **Understanding:** A question to identify responsibility.
- **Example:**
 - **Hindi:** "इस समस्या में किसकी गलती है?"
 - **English:** "Who's at fault in this issue?"

3. अब तुम्हारी बारी है

- **Translation:** Now, your turn!
- **Understanding:** Indicates that it's someone else's turn to act.
- **Example:**
 - **Hindi:** "मैंने अपनी बात कह दी, अब तुम्हारी बारी है।"
 - **English:** "I've said my piece, now it's your turn."

4. तो मुझे बताओ

- **Translation:** Then, tell me!
- **Understanding:** A prompt for someone to share information.
- **Example:**
 - **Hindi:** "तुम क्या सोचते हो? तो मुझे बताओ!"
 - **English:** "What do you think? Then, tell me!"

5. क्या बताऊं तुम्हें?

- **Translation:** Tell you what?
- **Understanding:** Expressing uncertainty about what to share.
- **Example:**
 - **Hindi:** "मुझे नहीं पता, क्या बताऊं तुम्हें?"
 - **English:** "I don't know, tell you what?"

6. मैं कसम खाता हूँ

- **Translation:** I swear.
- **Understanding:** A strong affirmation, often for emphasis.
- **Example:**
 - **Hindi:** "मैं कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया।"
 - **English:** "I swear, I didn't do that."

7. तुम फिर से देर से आए हो

- **Translation:** You're late again!
- **Understanding:** A statement of frustration about tardiness.
- **Example:**
 - **Hindi:** "क्लास के लिए तुम फिर से देर से आए हो।"
 - **English:** "You're late again for class!"

8. मुझे परवाह नहीं है

- **Translation:** I don't care.
- **Understanding:** A declaration of indifference.
- **Example:**
 - **Hindi:** "मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं।"
 - **English:** "I don't care what people think."

9. मैं फंस गया हूँ

- **Translation:** I'm stuck.
- **Understanding:** Indicates being trapped or unable to move forward.
- **Example:**
 - **Hindi:** "मैं इस समस्या में फंस गया हूँ।"
 - **English:** "I'm stuck in this problem."

10. हम यहाँ फंस गए हैं

- **Translation:** We're stuck here.
- **Understanding:** A collective expression of being unable to leave.
- **Example:**
 - **Hindi:** "हमें इस जगह पर फंसना नहीं चाहिए था।"
 - **English:** "We shouldn't have gotten stuck here."

11. इसमें कुछ समय लगेगा

- **Translation:** It's gonna take some time.
- **Understanding:** Indicates that a task will require patience.
- **Example:**
 - **Hindi:** "काम पूरा करने में इसमें कुछ समय लगेगा।"
 - **English:** "It's gonna take some time to finish the work."

12. आप इसको ऐसे करते हैं

- **Translation:** That's how you do it!
- **Understanding:** Demonstrating the correct method of doing something.
- **Example:**
 - **Hindi:** "सही तरीका यही है। आप इसको ऐसे करते हैं।"
 - **English:** "This is the right way. That's how you do it!"

13. क्या गड़बड़ है?

- **Translation:** What's wrong? / What's the matter?
- **Understanding:** A question to inquire about a problem.
- **Example:**
 - **Hindi:** "तुम इतने उदास क्यों हो? क्या गड़बड़ है?"
 - **English:** "Why are you so sad? What's wrong?"

14. मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा

- **Translation:** I lost track of time.
- **Understanding:** An expression of forgetting the time while doing something.
- **Example:**
 - **Hindi:** "मैं पढ़ाई में इतना खो गया कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा।"
 - **English:** "I got so absorbed in studying that I lost track of time."

15. मुझे मनाओ

- **Translation:** Convince me.
- **Understanding:** Requesting someone to persuade you.
- **Example:**
 - **Hindi:** "तुम्हें मुझे मनाना होगा।"
 - **English:** "You will have to convince me."

16. वह मुझसे क्यों झूठ बोलेगा?

- **Translation:** Why would he lie to me?
- **Understanding:** Questioning someone's honesty.
- **Example:**
 - **Hindi:** "अगर वह सच बोल रहा है, तो वह मुझसे क्यों झूठ बोलेगा?"
 - **English:** "If he's telling the truth, why would he lie to me?"

17. यह और भी बदतर हो जाएगा

- **Translation:** It will get worse.
- **Understanding:** A warning that a situation may deteriorate.
- **Example:**
 - **Hindi:** "अगर तुम इसे नजरअंदाज करते रहे, तो यह और भी बदतर हो जाएगा।"
 - **English:** "If you keep ignoring it, it will get worse."

Conclusion

These phrases are essential for **daily conversations** and understanding context in Hindi. Practice them to improve your fluency! 😊